



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 424]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 24, 2019/श्रावण 2, 1941

No. 424]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 24, 2019/SHRAVANA 2, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2019

सं. 28/2019-सीमा शुल्क (एडीडी)

**सा.का.नि. 524(अ).**—जहां कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने कोरिया गणराज्य और थाईलैंड (एतश्मिन पश्चात जिन्हें विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित "प्युरीफाइड टेट्रापथालिक एसिड" (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 2917 36 00 के अंतर्गत आता है, के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 23/2015-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 27 मई, 2015, जिसे सा.का.नि. 429(अ), दिनांक 27 मई, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत लगाए गए प्रतिपादन शुल्क को आगे जारी रखने के मामले में सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार तथा सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उनका मूल्यांकन और उन पर प्रतिपादन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 23 के अनुपालन में अधिसूचना संख्या 7/36/2018-डीजीटीआर, दिनांक 31 अक्टूबर, 2018, जिसे दिनांक 31 अक्टूबर, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत समीक्षा का कार्य शुरू किया है;

और जहां कि उक्त विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित उक्त विषयगत वस्तु के आयात पर प्रतिपादन शुल्क को जारी रखने के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी अपने अंतिम निष्कर्ष, जिसे अधिसूचना संख्या 7/36/2018-डीजीटीआर, दिनांक 28 जून, 2019 जिसे दिनांक 28 जून, 2019 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, में प्रकाशित, में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि:-

- (1) विषयगत माल का फालतू आयात हो रहा है और यदि यह शुल्क खत्म कर दिया जाता है तो इस प्रकार का आयात भारतीय बाजार में बहुत ही कम कीमत पर होने की संभावना है;
- (2) खास डंपिंग मार्जिन, इन्जुरी मार्जिन, भारी मात्रा में आयात, कीमतों में सकारात्मक कटौती, भारतीय बाजार की आकर्षक कीमतें, घरेलू उद्योग को निवेश पर कम प्रतिफल और निर्यातकों की अतिरिक्त क्षमता जैसे प्रतिमान सामूहिक और संचित रूप से यह दर्शाते हैं कि यदि इस शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो घरेलू

उद्योग को क्षति हो सकती है। यदि वर्तमान प्रतिपाटन शुल्क को समाप्त कर दिया जाए तो घरेलू उद्योग की स्थिति के बिगड़ने की संभावना है;

- (3) विषयगत देश से यदि फालतू आयात होता है तो घरेलू उद्योग का कामकाज गड़बड़ हो सकता है। इस प्रकार इस प्रतिपाटन शुल्क को आगे बढ़ाया जाना जरूरी है;
- (4) घरेलू उद्योग ने स्वयं इस शुल्क को जारी रखने की मांग की है। अतः प्राधिकारी अपनी मूल जांच में इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जैसा लगाया गया था उसी स्तर पर प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखना उचित होगा।

और घरेलू उद्योग को होने वाली इस क्षति को दूर करने के लिए विषयगत देशों में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित विषयगत वस्तु के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क को लगाने की सिफारिश की है।

अतः अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18, 20 और 23 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, उक्त निर्दिष्ट प्राधिकारी के अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात्, एतद्वारा, विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में निर्दिष्ट है, जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद के अंतर्गत आती हैं, कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में मूलतः उत्पादित है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है, कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट निर्यातकों से निर्यातित है और भारत में आयातित है पर कॉलम (10) में विनिर्दिष्ट मुद्रा में तथा कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार, कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि के बराबर की दर से प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा:—

#### सारणी

क्र. सं.	टैरिफ मद	वस्तु का विवरण	मूलतः उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	2917 36 00	प्यूरिफाइड टैरेप्थालिक एसिड*	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य	हांवा जनरल कैमिकल कंपनी लिमिटेड	ह्यूसंग टीएनसी कार्पोरेशन	27.32	मैट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
2	2917 36 00	प्यूरिफाइड टैरेप्थालिक एसिड*	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य	टेकवांग इंडस्ट्रीयल कंपनी लिमिटेड	टेकवांग इंडस्ट्रीयल कंपनी लिमिटेड	23.61	मैट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
3	2917 36 00	प्यूरिफाइड टैरेप्थालिक एसिड*	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य	उपर्युक्त क्रम संख्या 1 और 2 में उल्लिखित से भिन्न अन्य कोई भी संयोजन		78.28	मैट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
4	2917 36 00	प्यूरिफाइड टैरेप्थालिक एसिड*	कोरिया गणराज्य	कोई भी देश	कोई भी	कोई भी	78.28	मैट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
5	2917 36 00	प्यूरिफाइड टैरेप्थालिक एसिड*	जिन देशों पर प्रतिपाटन शुल्क लगता है उनसे भिन्न कोई देश	कोरिया गणराज्य	कोई भी	कोई भी	78.28	मैट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
6	2917 36 00	प्यूरिफाइड टैरेप्थालिक एसिड*	थाईलैंड	थाईलैंड	इंडोरामा पेट्रोकेम लिमिटेड	इंडोरामा पेट्रोकेम लिमिटेड	45.43	मैट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर

7	2917 36 00	प्युरीफाइड टेरेफ्थालिक एसिड*	थाईलैंड	थाईलैंड	टीपीटी पेट्रोकेमिकल्स पब्लिक कंपनी लिमिटेड	टीपीटी पेट्रोकेमिकल्स पब्लिक कंपनी लिमिटेड	45.43	मैट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
8	2917 36 00	प्युरीफाइड टेरेफ्थालिक एसिड*	थाईलैंड	थाईलैंड	उपर्युक्त क्रम संख्या 6 और 7 में उल्लिखित से भिन्न अन्य कोई भी संयोजन		62.55	मैट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
9	2917 36 00	प्युरीफाइड टेरेफ्थालिक एसिड*	थाईलैंड	कोई भी देश	कोई भी	कोई भी	62.55	मैट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
10	2917 36 00	प्युरीफाइड टेरेफ्थालिक एसिड*	जिन देशों पर प्रतिपाटन शुल्क लगता है उनसे भिन्न कोई देश	थाईलैंड	कोई भी	कोई भी	62.55	मैट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर

\*जिसमें इसके अन्य प्रकार – मीडियम क्वालिटी टेरेफ्थेलिक एसिड (एम. टी. ए.) तथा क्वालिफाइड टेरेफ्थेलिक एसिड (क्यू. टी. एम.) शामिल हैं।

2. लगाए गए या प्रतिपाटन शुल्क इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक (यदि इससे पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है, या इसमें संशोधन नहीं होता है तो) लागू रहेगी और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा।

**स्पष्टीकरण** – इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी।

[फा. सं. 354/95/2015-टीआरयू (पार्ट-I)]

रूचि बिष्ट, अवर सचिव

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 24th July, 2019

No. 28/2019-Customs (ADD)

**G.S.R. 524(E).**—Whereas, the designated authority, *vide* notification No.7/36/2018 DGTR, dated the 31<sup>st</sup> October, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 31<sup>st</sup> October, 2018, had initiated the review in term of sub-section (5) of section 9 A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act) and in pursuance of rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of 'Purified Terephthalic Acid' (hereinafter referred to as the subject goods), falling under the tariff item 2917 36 00 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, originating in or exported from Korea RP and Thailand (hereinafter referred to as the subject countries), imposed *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 23/2015-Customs (ADD) dated the 27<sup>th</sup> May, 2015 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 429 (E), dated the 27<sup>th</sup> May, 2015;

And whereas, in the matter of review of anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country, the Designated Authority in its final findings, published *vide* notification

No.7/36/2018-DGAD, dated the 28<sup>th</sup> June, 2019 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 28<sup>th</sup> June, 2019, has come to the conclusion that-

- (1) there is continued dumping of the subject goods and the imports are likely to enter the Indian market at dumped prices in the event of expiry of duty;
- (2) the parameters such as significant dumping margin, injury margin, significant volume of imports, positive price undercutting, price attractiveness of the Indian market, low return on investment earned by the domestic industry and surplus capacities of the exporters, collectively and cumulatively shows that injury to the domestic industry is likely in the event of cessation of duty and the situation of domestic industry is likely to deteriorate if the existing anti-dumping duties are allowed to cease;
- (3) the deterioration in the performance of the domestic industry is likely because of dumped imports from the subject country and thus, the anti-dumping duties are required to be extended;
- (4) the domestic industry has itself sought continued imposition of duty and the authority concludes that it is appropriate to continue the same level of anti-dumping duty as imposed earlier in the original investigation.

And whereas it has been recommended the imposition of definitive anti-dumping duty on the imports of subject goods, originating in or exported from the subject country and imported into India, in order to remove injury to the domestic industry.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18, 20 and 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (4), exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), exported by the exporters as specified in the corresponding entry in column (7), and imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount as specified in the corresponding entry in column (8), in the currency as specified in the corresponding entry in column (10), and per unit of measurement specified in the corresponding entry in column (9) of the said Table.

**DUTY TABLE**

Sl. No.	Tariff Item	Description of Goods	Country of Origin	Country of Export	Producer	Exporter	Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	2917 36 00	Purified Terephthalic Acid*	Korea RP	Korea RP	Hanwha General Chemical Co., Ltd.	Hyosung TNC Corporation	27.32	MT	USD
2.	2917 36 00	Purified Terephthalic Acid*	Korea RP	Korea RP	Taekwang Industrial Co., Ltd.	Taekwang Industrial Co., Ltd.	23.61	MT	USD
3.	2917 36 00	Purified Terephthalic Acid*	Korea RP	Korea RP	Any combination other than mentioned in S. No. 1 & 2 above.		78.28	MT	USD
4.	2917 36 00	Purified Terephthalic Acid*	Korea RP	Any country	Any	Any	78.28	MT	USD
5.	2917 36 00	Purified Terephthalic Acid*	Any country other than those subject to anti-dumping duty.	Korea RP	Any	Any	78.28	MT	USD
6.	2917 36 00	Purified Terephthalic Acid*	Thailand	Thailand	Indorama Petrochem Ltd.	Indorama Petrochem Ltd.	45.43	MT	USD
7.	2917 36 00	Purified Terephthalic Acid*	Thailand	Thailand	TPT Petrochemicals Public Co. Ltd.	TPT Petrochemicals Public Co. Ltd.	45.43	MT	USD

8.	2917 36 00	Purified Terephthalic Acid*	Thailand	Thailand	Any combination other than mentioned in S. No. 6 & 7 above.		62.55	MT	USD
9.	2917 36 00	Purified Terephthalic Acid*	Thailand	Any country	Any	Any	62.55	MT	USD
10.	2917 36 00	Purified Terephthalic Acid*	Any country other than those subject to anti-dumping duty	Thailand	Any	Any	62.55	MT	USD

\*Including variants of PTA, namely, Medium Quality Terephthalic Acid (MTA) and Qualified Terephthalic Acid (QTA)

2. The anti-dumping duty imposed shall be effective for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be payable in Indian currency.

**Explanation.-** For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Act.

[F. No. 354/95/2015-TRU (Pt. I)]

RUCHI BISHT, Under Secy.